



Prepared by: Renu Sharma

Subject: हिंदी
LESSON- 4 गेहूँ की बालियाँ ,
व्याकरण – शब्द और वाक्य

प्रश्न -१) शब्दार्थ मधुश्री पाठ्यपुस्तक से देखकर नोटबुक में लिखिए ।

प्रश्न -२) दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में में प्रयोग कीजिए –

क) हवा - बयार

वाक्य – ठंडी हवा चल रही है ।

ख) गीत – गाना

वाक्य – किसनू काका गीत सुनाते हैं ।

ग) पंछी – पक्षी , चिड़िया

वाक्य – पंछी आकाश में उड़ रहे हैं ।

प्रश्न -३) खाली स्थान भरिए –

क) सोने का सागर हैं रचतीं ।

ख) किसनू काका गीत सुनाते ।

ग) पकी गेहूँ की लो बालियाँ ।

प्रश्न -४) दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए –

क) गेहूँ की बालियाँ दिखने में कैसी लगती हैं ?

उत्तर- गेहूँ की बालियाँ दिखने में सोने की - सी लगती हैं ।

ख) लहराते खेतों को देखकर कौन झूमते हैं ?

उत्तर - लहराते खेतों को देखकर किसनू काका झूमते हैं ।

ग) किसनू काका कौन हैं ?

उत्तर- किसनू काका एक किसान हैं ।

घ) कौन इतराते हैं ?

उत्तर- पंछी इतराते हैं ।

प्रश्न -५) दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो – तीन वाक्यों में लिखिए –

क) गेहूँ की बालियों को सोने के समान क्यों कहा गया है ?

उत्तर- गेहूँ की बालियाँ सुनहरे रंग की हैं इसलिए वे सोने के समान लग रही हैं ।

ख) गेहू की बालियाँ कब और क्या रचती हैं ?

उत्तर- हवा चलने पर गेहूँ की बालियाँ सोने का सागर रचती हैं ।

ग) क्या देखकर किसनू काका गीत गाते हैं ?

उत्तर- लहलहाते खेतों को देखकर किसनू काका गीत गाते हैं ।

घ) लहराते खेतों को देखकर कवि की क्या इच्छा हो रही है ?

उत्तर- लहराते खेतों को देखकर कवि की तीतर और कबूतर के समान घूमने की इच्छा हो रही है ।

व्याकरण पाठ ४ – शब्द और वाक्य

वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं । शब्द बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए ।

जैसे - ल + क + म = लकम (अर्थ – कुछ नहीं)

थी + हा = थीहा (अर्थ – कुछ नहीं)

‘लकम ‘ और ‘थीहा’ कोई शब्द नहीं हैं , क्योंकि इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता । अगर हम इन वर्णों का सही क्रम कर दे , तो सही शब्द बनेगा –

जैसे – क+म+ल = कमल (अर्थ – एक फूल)

हा + थी = हाथी (अर्थ – एक जानवर)

कमल और हाथी का अर्थ है । इसलिए ये शब्द हैं ।

शब्द की परिभाषा – वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं ।

वाक्य

जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है ।

जैसे – नदी में नहा है रहा हाथी ।

इस वाक्य में शब्द तो सही हैं लेकिन उनका क्रम सही नहीं है । इसलिए यह वाक्य गलत है ।

वाक्य का सही रूप – हाथी नदी में नहा रहा है ।

अब शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है इसलिए यह वाक्य सही है ।

वाक्य की परिभाषा – शब्दों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो , उसे वाक्य कहते हैं ।